Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069.

Place : Varanasi / Jaunpur

Date: 02-07-2022

Authorised Officer

Aadhar Housing Finance Limited

Varanasi Branch: D- 63/11-1, Bindal Complex, 2nd Floor, Mahmoorganj, Varanasi-221010,(UP) **Jaunpur Branch** : House no.478,Plot 87/1, & 87/2, at village sarai kaji kadan, Civil Court Rd, Nr Axis Bank, Hussenabad Miyanpur Pargana Haveli, Tehsil Sadar, Dist Jaunpur- 222002, Uttarpradesh,

APPENDIX IV **POSSESSION NOTICE** (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demanc Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him unde Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon

Sr. No		Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(App No. 00114643 / Varanasi Branch) Ajay Kumar Singh (Borrower), Shalu Singh (Co-Borrower) Mukesh Singh (Guarantor)	All the part & parcel of property bearing, Araji No-64, Mauza- Rerua Urf Chiraigaon Paragana- Jahlupur Teh & Disst-, Varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh-221007 Boundaries: East: 14 ft. wide kachcha rasta, West: Land of Dilip & Others, North: Remaining Part of Arazi No. 64, South: Remaining Part of Arazi No. 64	11-06-2021 & ₹ 6,81,868/-	27-06-2022
2	(App No. 00330563 / Jaunpur Branch) Bechu Bind (Borrower), Malti Devi (Co-Borrower)	All the part & parcel of property bearing, Arazi No. 346, 347, 348, 349 & 350, Mauza-Premrajpur, Pargana-Haweli Teh-Sadar, Distt-Jaunpur, Uttar Pradesh-222001, Boundaries: East: rest land of seller amrendra kumar, West: 12 Ft. Wide Kachcha Rasta, North: Rest Land of Seller T/F 15 Ft. Wide Interlocking Rasta, South: Rest Land of Seller Amrendra Kumar	11-06-2021 & ₹ 6,26,394/-	28-06-2022

iness Standard WHAT'S ON PAPE

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out





business-standard.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH, ALLAHABAD (ORIGINAL JURISDICTION) COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 11/ALD OF 2022 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013) SECTIONS 230 & 232

> IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT AND IN THE MATTER OF

RTS FASHIONS PVT LTD MIRZA INTERNATIONAL LTD

REDTAPE LTD

APPLICANT NO. 1/TRANSFEROR COMPANY

APPLICANT NO. 2/TRANSFEREE COMPANY

APPLICANT NO. 3/RESULTING COMPANY NOTICE CONVENING SEPARATE MEETINGS

Notice is hereby given that by Order dated 14th June, 2022 (date of pronouncement), the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Allahabad has, inter alia, directed for convening of separate meetings of the Equity Shareholders and Un-secured Creditors of Mirza International Ltd, through Video Conferencing with facility of remote e-voting, for the purpose of considering and, if thought fit, approving, the proposed Composite Scheme of Arrangement of RTS Fashions Pvt Ltd, Mirza International Ltd and Redtape Ltd; and other connected matters, if any.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby give that separate meetings of the following stakeholders of Mirza International Ltd will be held through Video Conferencing with facility of remote e-voting on Saturday, 6th August, 2022, as per the following schedule, at which time the said stakeholders are required to the said

Staneill	Refloiders are requested to attend.			
SI No.	Meeting of	Time		
1.	Equity Shareholders of Mirza International Ltd	11:00 A.M.		
2.	Un-secured Creditors of Mirza International Ltd	1:00 P.M.		

Please note the following:

 Both the above-mentioned meetings will be held through video conferencing in terms of the Order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, the Guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, and other applicable provisions, if any.

Copies of the Notice of the respective meetings along with the Scheme of Arrangement, Explanatory Statement and other documents, if any, are being sent to the Equity Shareholders and Un-secured Creditors of Mirza International Ltd, through e-mail only.

 Equity Shareholders and Un-secured Creditors who have not registered their
e-mail addresses with the Company can get the same registered by sending the request to the Company at compliance@mirzaindia.com

In case of any difficulty in registering the e-mail id; e-voting or attending the meeting through Video Conferencing, etc., the following persons may be

contacted.	
Name	Contact Detail
Mr Sharwan Mangla, General Manager	011-26387281-83
Mas Services Ltd	sm@masserv.com
Ms Harshita Nagar	011-4095 9500
Company Secretary & Compliance Officer	compliance@mirzaindia.com
Mirza International Ltd	

Please note that there would not be any physical dispatch of notice through post/courie • Notice of the meetings, Explanatory Statement and other documents are also being

Particulars	Website	
Mirza International Ltd	www.mirza.co.in	
BSE Ltd	www.bseindia.com	
National Stock Exchange of India Ltd	www.nseindia.com	
 Voting may be made through remote e-voting where the control of the	nich will be available during the prescrib	

time period before the meetings, as given below and through e-voting platform which wi be available during the meetings: Commencement of remote e-voting Tuesday, 2nd August, 2022 at 9:00 A.M. IST End of remote e-voting Friday, 5m August, 2022 at 5:00 P.M. IST

Instructions for attending the meetings through Video Conferencing, and to vote through remote e-voting, etc., are provided in the Notice of the respective meetings.

Since both the meetings are proposed to be held through Video Conferencing, option of attending the meeting through proxy is not applicable/available.

Copies of the aforesaid Scheme of Arrangement, Explanatory Statement and othe

annexures may be obtained free of charge, from the registered office of Mirza International Ltd at 14/6, Civil Lines, Kanpur 208 001, Uttar Pradesh; or from the office of its Legal Counsel-Mr Kartikeya Goel, Advocate, M/s Rajeev Goel & Associates, Advocates and Solicitors, 785, Pocket-E, Mayur Vihar-II, Delhi-Meerut Expressway/ NH-9, Delhi-110 091, India, e-mail: raieev391@gmail.com; Website; www.rgalegal.in, on any working da xcept Saturday) from the date of this notice till the date of meetings between 11.00 A.M.

The Hon'ble Tribunal has appointed Mrs Santosh Kumari, Advocate, as the commor Chairperson and Mr Anil Kumar Mittal, as the common Scrutinizer of the aforesaic

The above-mentioned Scheme of Arrangement, if approved in the respective meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Allahabad Dated this 29th day of June, 2022

Sd/-Santosh Kumari, Advocate

Through,

Kartikeya Goel, Advocate For Rajeev Goel & Associates 785, Pocket-E, Mayur Vihar-II, Delhi Meerut Expressway/NH-9, Delhi 110 09

E-mail: rajeev391@gmail.com, Website: www.rgalegal.in

Chemcon Speciality Chemicals Limited

Regd. Office: Block No. 355, Manjusar Kunpad Road, Village: Manjusar, Taluka: Savli, Vadodara – 391775.
Tel: 0265 – 2981195 | Website: www.cscpl.com | Email: investor.relations@cscpl.com

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the **33**" **(Thirty-third)** Annual General Meeting (AGM) of the members of Chemcor

Speciality Chemicals Limited (the Company) will be held on Tuesday, July 26, 2022, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with MCA Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 12th May, 2020 and 13th May, 2022, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular),to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In accordance with the aforesaid circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22, has been sent through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on July 1 2022. The notice of AGM along with the Annual Report is also available on the Company's website (www.cscpl.com), Stock Exchanges website - BSE Limited (www.bseindia.com) & National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the Notice of AGM shall also be availableon the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (www.evotingindia.com).

The Company is providing to its members, the facility to cast their vote electronically on all resolutions which are set out in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of CDSL to provide the e-voting facility to the members. The remote e-voting period commences on Saturday, July 23, 2022, at 10:00 am and ends on Monday, July 25, 2022, at 05:00 pm. The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name is registered in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, July 19, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and/or for participation at AGM and vote through e-voting system available during the AGM. The Members who will be present during the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have casted their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/Depositories and the person who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date may download the Notice of AGM and follow the procedure for remote e-voting, attending the AGM and voting at the AGM as mentioned in the notice of AGM.

Those Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s can get their email address registered by following the steps as given below:

a. For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned share certificate (front and back), self- attested copy of the PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address at: investor.relations@cscpl.com.

b. For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective

Depository Participant/s. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.


Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

anough Bopository i.e. Oboc and Nobe.			
Login type	Helpdesk details		
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk		
securities in Demat mode with CDSL	by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at		
	toll free no. 1800 22 55 33		
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpde		
securities in Demat mode with NSDL	L by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.:		
	1800 1020 990 and 1800 22 44 30		
	For Chemcon Speciality Chemicals Limited		

Shahilkumar Kapatel

Company Secretary & Compliance Officer M. No.: A52211

























Place: Vadodara Date: July 1, 2022



























भारत फोर्ज की हुई जेएस ऑटोकास्ट

वाहन कलपूर्जा निर्माता कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी बीएफ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के साथ मिलकर कोयंबटूर स्थित जेएस ऑटोकास्ट फाउंड्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारत फोर्ज ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में यह अधिग्रहण सौदा पुरा होने की जानकारी दी।भाषा

तेलंगाना में एनटीपीसी का सौर संयंत्र चालू

एनटीपीसी की तेलंगाना में जलाशय में लगी 100 मेगावॉट क्षमता की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का परिचालन परी तरह से शरू हो गया है। कंपनी ने शुक्रवार को बीएसई को भेजी सचना में कहा, 'तेलंगाना के रामगौदम जलक्षेत्र स्थित 100 मेगावॉट की सौर परियोजना का 20 मेगावॉट क्षमता वाले अंतिम हिस्से का परिचालन भी शुरू हो गया है।' इसके साथ ही एनटीपीसी की एकल आधार पर स्थापित एवं वाणिज्यिक क्षमता 54,769.20 मेगावॉट हो गई।

एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन जून, 2022 के दौरान लगभग 14 फीसदी घटकर 25.7 लाख टन रह गया। एनएमडीसी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि जून, 2021 में इसने 29.8 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था। कंपनी की पिछले महीने बिक्री सालाना आधार पर 40 फीसदी घटकर 19 लाख टन रह गई।

वाहन कंपनियों ने भरा फर्राटा

जून में वाहन कंपनियों की बिक्री बढ़ी, चिप किल्लत धीरे-धीरे कम होने से बिक्री को रफ्तार

वाहनों की बिक्री नई दिल्ली, 1 जुलाई

🖣 रुति सुजूकी, हुंडई और टाटा

मोटर्स जैसी प्रमुख वाहन

विनिर्माता कंपनियों की यात्री

वाहनों की बिक्री में जून 2022 में

उछाल दर्ज हुई। सेमीकंडक्टर की कमी

का संकट धीरे-धीरे कम होने के संकेत

के साथ वाहनों की बिक्री बढ़ी है। अन्य

विनिर्माताओं, किया इंडिया, एमजी

मोटर इंडिया और स्कोडा ऑटो इंडिया

ने भी पिछले महीने बाजार में अपने

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता

कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया

(एमएसआई) की कुल थोक बिक्री जुन

2022 के दौरान 5.7 फीसदी बढ़कर

1,55,857 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी

ने जून 2021 में डीलरों को

1,47,368 इकाइयां भेजी थी। कंपनी

की घरेलू बिक्री 1.28 फीसदी बढ़कर

1,32,024 इकाई हो गई, जो जून

2021 में 1,30,348 इकाई थी। वहीं

हंडई मोटर इंडिया लिमिटेड

(एचएमआईएल) की कल बिक्री जन

में 14.5 फीसदी बढकर 62.351

इकाई हो गई। पिछले साल इसी महीने में

एचएमआईएल की घरेलू बिक्री

पिछले महीने 21 फीसदी बढ़कर

इसने कुल 54,474 वाहन बेचे थे।

वाहनों की मजबूत बिक्री दर्ज की।

- मारुति की कुल थोक बिक्री 5.7 फीसदी बढ़ी हुंडई की कुल बिक्री 14.5 फीसदी बढ़ी
- टाटा मोटर्स की कार बिक्री 87 फीसदी बढ़ी
- किया इंडिया की बिक्री 60 फीसदी बढी
- स्कोडा ऑटो इंडिया की बिक्री 8 फीसदी बढ़ी
- एमजी मोटर की बिक्री 27 फीसदी बढ़ी
- फोक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया की पहली छमाही में बिक्री दोगुना बढ़ी

49.001 इकाई पर पहंच गई। कंपनी ने जुन 2021 में 40,496 इकाइयां बेची थी। एचएमआईएल के निदेशक (बिक्री, विपणन और सेवा) तरुण गर्ग ने कहा, सेमीकंडक्टर की कमी को लेकर संकट दूर होने के संकेत के साथ बिक्री में फिर से सकारात्मक रुझान दिखने लगा है।

टाटा मोटर्स की घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 87 फीसदी बढ़कर 45,197 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने एक साल पहले इसी महीने में 24.110 वाहन बेचे थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र ने कहा, हमारे एसयुवी

पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बिक्री में 68 फीसदी का योगदान किया है। इस दौरान इलेक्टिक वाहनों की बिक्री 9,283 इकाई रही। जून 2022 में 3,507 इकाइयों की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री के साथ नयी उपलब्धि हासिल की।

वहीं किया इंडिया की बिक्री जन में 60 फीसदी बढ़कर 24,024 इकाई हो गई। यह कंपनी की अब तक की सबसे उच्चतम मासिक थोक बिक्री है। विनिर्माता ने जून 2021 में डीलरों को 15,015 इकाइयां भेजी थीं। स्कोडा ऑटो इंडिया की भी जून, 2022 में बिक्री आठ फीसदी की उछाल के साथ 6,023 इकाइयों पर पहुंच गई। जबकि पिछले साल इसी महीने में इसकी 734 इकाइयों बेची थी। इसी तरह, एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री जुन में 27 फीसदी बढ़कर 4,503 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 3,558 इकाइयों की बिक्री की थी।

फोक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया की वर्ष की पहली छमाही (जनवरी-जून) में बिक्री दोगुना वृद्धि के साथ 21,588 इकाइयों पर पहुंच गई। इसने एक साल पहले की अवधि में 10,843 इकाइयां बेची थी। अशोक लीलैंड की कुल बिक्री जन में 125 फीसदी की वृद्धि के साथ 14,351 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने जून 2021 में कुल 6,448 इकाइयां बेची थी।

चीनी कंपनी को संयंत्र नहीं बेचेगी जीएम

नई दिल्ली/शांघाई, 1 जुलाई

जनरल मोटर्स (जीएम) ने आज कहा कि उसने अपना भारतीय कार विनिर्माण संयंत्र चीन की कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स को बेचने की योजना टाल दी है। कंपनी ने कहा है कि चीनी कंपनी द्वारा भारत में निवेश के लिए सख्त प्रावधान होने और नियामकीय मंजूरियां हासिल न होने के कारण ऐसा किया गया है।

जीएम ने अपने भारतीय कार विनिर्माण संयंत्र की बिक्री के लिए जनवरी 2020 में एसयुवी बनाने वाली चीन की कंपनी ग्रेट वॉल के साथ एक सौदा के लिए पहल की थी। इसके तहत ग्रेट वॉल 30 करोड़ डॉलर का भुगतान कर सकती है जो तेजी से उभर रहे भारतीय कार बाजार में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए उसके 1 अरब डॉलर की निवेश योजना का हिस्सा था। इस समझौते को दो बार विस्तार दिए जाने के बावजद उसकी अवधि 30 जन को खत्म हो गई।

जीएम इंटरनैशनल के कार्यकारी निदेशक (संचार) जॉर्ज स्विगोस ने कहा, 'हम इस सौदे के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक नियामकीय मंजूरियां हासिल करने में विफल रहे।' उन्होंने कहा, 'हमारी भारतीय रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अब हम उस संयंत्र की बिक्री के लिए अन्य विकल्पों पर गौर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें उस परिसंपत्ति का उचित मल्य मिल

चीन की कंपनी ने भी इस सौदे के खारिज होने की पुष्टि की है। ग्रेट वॉल मोटर्स ने एक बयान में कहा, 'ग्रेट वॉल मोटर्स भविष्य में भारतीय बाजार पर अपनी नजर बरकरार रखेगी और लगातार नए अवसरों को तलाशती रहेगी।' इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए सरकार से तत्काल



सौदा रद्द

- जीएम ने अपने भारतीय कार विनिर्माण संयंत्र की बिक्री के लिए जनवरी 2020 में ग्रेट वॉल के साथ एक सौदा किया था
- जीएम ने कहा, नियामकीय मंजूरियां हासिल न होने के कारण सौदा रद्द करना पड़ा

कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।

चीन सहित पड़ोसी देशों से निवेश के मोर्चे पर भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में अपना रुख सख्त किए जाने से कुछ महीने पहले जीएम ने अपने भारतीय संयंत्र क बिक्री के लिए ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ सौदा किया था। यह पहल सीमा पर तनाव के कारण खराब होते कुटनीतिक संबंधों के बीच भारत सरकार द्वारा चीन से कारोबार को हतोत्साहित करने की रणनीति के तहत किया गया था। इसी क्रम में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देत हुए टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप पर

जीएम ने साल 2017 के अंत में भारतीय बाजार में कारों की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया था। वह अपनी एक संयंत्र की बिक्री एसएआईसी मोटर कॉर्प को पहले ही कर चुकी है जहां चीन की वाहन कंपनी अपने ब्रिटिश ब्रांड एमजी मोटर के तहत कारों का उत्पादन

के कारण ट्रैक्टर श्रेणी में मार्जिन को झटका

लगा और महंगाई का बोझ हल्का करने के

लिए कंपनी ने कीमतों में मामूली वृद्धि की।

इसके बावजद कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में

वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में कंपनी

ने 17,124 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज

किया जो सालाना आधार पर 28 फीसदी

अधिक है। जबकि एबिटा मामूली गिरावट के

साथ 1,945 करोड़ रुपये रही और एबिटा

मार्जिन सालाना आधार पर 11.7 फीसदी से

18 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रतिबंध लगा दिया था।

टोयोटा ने हाइब्रिड कार की झलक दिखाई

है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन

विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि नया मॉडल भारत

के इलेक्टिक वाहन श्रेणी में भी 'गेम चेंजर'

साबित होगा। वह नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च

समारोह को संबोधित कर रहे थे। टोयोटा ने इससे

पहले कहा था कि वह भारत जैसे विकासशील

बाजारों में हाइब्रिड मार्ग पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने

यूको बैंक 😭 UCO BANK

यूको बैंक निम्नलिखित मदो के लिए प्रस्ताव हेत् अन्रोध (आर.एफ.पी.) आमंत्रित करता है:-एम.आई.एस.ए.डी.एफ डीबी सर्वर के एंटरप्राइज बैकअप समाधान के कार्यान्वयन के लिए विक्रेता का चयन के प्रस्ताव हेतु अनुरोध।

. पंजीगत व्यय (कैपेक्स) मॉडल पर केंद्रीकृत "मल्टी ग्रिड" चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सी टी एस) समाधान का कार्यान्वयं के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (पुनः निविदा)।

. कैपेक्स मॉडल पर 300 नए एटीएम्स की खरीद के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (पुनः निविदा)। 4. फिनटेक कंपनियों के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

5. आवश्यक सॉफ्टवेयर और सविधा प्रबंधन सेवाओं सहित केंट्रीकत केवार्डसी (सीकेवार्डसी) रजिस्ट्री आवेदन के कार्यान्वयन के लिए विक्रेता का चयन के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (पुन: निविदा)।

6. हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और डेटाबेस के साथ भीम आधार पे समाधान क कार्यान्वयन और रखरखाव के प्रस्ताव हेतु अनुरोध ।

> राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण इलाहाबाद पीठ. इलाहाबाद के समक्ष

> > (मूल क्षेत्राधिकार)

कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) 2022 का 11/एएलडी

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)

खंड 230 और 232 के मामले में

ठहराव की योजना के मामले में

निम्नलिखित के मामले में

आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक सं. 1/अन्तरक कंपनी

मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड आवेदक सं. 2/अन्तरिती कंपनी औ

रेडटेप लिमिटेड

आवेदक सं ३/परिणामी कंपर्न

अलग से बैठक आयोजित करने की सचना

तद्वारा सुचित किया जाता है कि, आदेश दिनांक 14 जून, 2022 (उद्घोषणा की तिथि) द्वारा, माननीय राष्ट्रीय कम्प

विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद ने अन्य बातों के साथ-साथ आरटीएस फैशन्स प्रा.लि., मिज

इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेडटेप लिमिटेड के ठहराव की प्रस्तावित मिश्रित योजना तथा अन्य सम्बन्धित मामल

यदि कोई हो, पर विचार करने, और यदि उपयक्त हुआ तो अनुमोदन करने के उददेश्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग के

गध्यम से मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के डिक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभत शेयरधारकों की अलग से बैठव

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार, एतदद्वारा आगे नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार, जिस समय उक्त हितधारकों से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है, मिर्जा

इंटरनेशनल लिमिटेड के निम्नलिखित हितधारकों की अलग-अलग बैठकें शनिवार, 6 अगस्त, 2022 को रिमोट ई

● उपरोक्त दोनों बैठकें माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश, कॉपोरेंट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के

● ठहराव की योजना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य दस्तावेजों के साथ संबंधित बैठकों की सूचना की प्रतिया यदि कोई हो, केवल ई–मेल के माध्यम से मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदार

इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभृत लेनदार जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं,

ई-मेल आईडी को पंजीकत करने: ई-वोटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से बैठक में भाग लेने

श्री श्रवण मंगला, महाप्रबन्धक, मास सर्विसेज लिमिटेड 011-26387281-83 sm@masserv.coi

• बैठकों की सुचना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य दस्तावेज निम्नलिखित वेबसाइट पर भी डाले जा रहे हैं:

● रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की जा सकती है जो कि बैठकों से पहले निर्धारित समय अवधि के दौरा

पलब्ध होगी. जैसा कि नीचे दिया गया है और ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बैठकों के दौरान उपलब्ध होग

• बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग आदि के माध्यम से मतदान करने वे

चंकि दोनों बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है. इसलिए पॉक्सी के माध्यम

• उक्त ठहराव की योजना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य अनलग्नकों की प्रतियां मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय 14/6, सिविल लाइंस, कानपुर 208 001, उत्तर प्रदेश से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं; या इसवे

काननी सलाहकार के कार्यालय -श्री कार्तिकेय गोयल अधिवक्ता मेसर्स राजीव गोयल एंड एसोसिएटस अधिवक्ता औ

सॉलिसिटर, 785, पॉकेट-ई, मयर विहार- II, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे / एनएच-9, दिल्ली-110 091, भारत, ई-मेल

rajeev391@gmail.com; चेबसाइटः www.rgalegal.in, से किसी भी कार्य दिवस पर (शनिवार को छोड़कर

नाननीय अधिकरण ने श्रीमती संतोष कमारी, एडवोकेट, को कॉमन अध्यक्ष और श्री अनिल कमार मित्तल को उपरोर

ठहराव की उपर्युक्त योजना, यदि संबंधित बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो बाद में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विषि

संतोष कुमारी, एडवोकेट

785. पॉकेट-ई. मयर विहार-II. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-9. दिल्ली 110 09

ई-मेलः rajeev391@gmail.com, वेबसाइटः www.rgalegal.in

इस नोटिस की तिथि से बैठक की तिथि तक 4.00 बजे अपराह्न से 11.00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है।

011-4095 9500

www.bseindia.com

मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.

शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 को 5.00 बजे अप. भा.मा.स.

वेबसाइट

कार्तिकेय गोयल. अधिवत्त

आवेदक के काउंसे

कते राजीव गोयल एण्ड एसोसिएट

कंपनी को compliance@mirzaindia.com पर अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत करा सकते हैं।

किसी भी कठिनाई के मामले में निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है

● कृपया ध्यान दें कि डाक/कूरियर के माध्यम से नोटिस का कोई भौतिक प्रेषण नहीं होगा।

वोटिंग की सविधा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी

मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारक

2. मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के अप्रतिभृत शेयरधारक

संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

किसी भी विवरण के लिए कृपया https://www.ucobank.com वेबसाइट पर देखें। दिनांक : 02.07.2022

आयोजित करने का निर्देश दिया है।

सश्री हर्षिता नागर

मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड

मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड

कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी

विवरण

शनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निर्देश संबंधित बैठकों की सुचना में दिए गए हैं।

बैठक में भाग लेने का विकल्प लागु/उपलब्ध नहीं है।

बैठकों के कॉमन संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 29 जून, 2022

अधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ, इलाहाबाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

(उप-महाप्रबंधक) सचना प्रौद्यौगिकी विभाग

11:00 बजे पुर्वा.

1:00 बजे अप.

इफको को पेटेंट मिला

एक नई पहल की है।

टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ने आज भारतीय

बाजार के लिए अपनी पहली मास मार्केट

हाइब्रिड कार की झलक दिखाई जो एक स्पोटर्स

युटिलिटी व्हीकल (एसयुवी) है। इसके साथ ही

कंपनी ने तेजी से उभरते भारतीय कार बाजार में

सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ अपने

प्रमुख सहकारी उर्वरक कंपनी इफको लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किये गये अपने दो नए उत्पादों - नैनो यूरिया और नैनो डीएपी - के लिए पेटेंट हासिल किया है। युरिया और डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) देश में बड़े पैमाने पर खपत वाले उर्वरक हैं। इफको ने अपने नैनो उत्पादों के लिए भारत सरकार से 20 साल की अवधि के लिए पेटेंट प्राप्त किया है।

इफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने कहा, 'इफको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की यह बौद्धिक संपदा कृषि की लागत को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।' इफको के नैनो यरिया और नैनो डीएपी अगली पीढ़ी के उर्वरक किसानों और पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहे हैं। बयान के अनुसार, ये उत्पाद मिट्टी, वाय और जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे। अवस्थी ने कहा कि गुणवत्ता वाली फसलों की मात्रा का उत्पादन करने के लिए, इन नए उत्पादों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।

वैश्विक गठबंधन के तहत टोयोटा ने अर्बन कहा कि इन बाजारों में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक क्रुजर हाईराइडर एसयुवी को तैयार किया है। वाहनों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध टोयोटा बाजार में हंडई मोटर कंपनी और किया नहीं है और इन देशों में अधिकांश बिजली मोटर्स से इस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेगी। भारत में उत्पादन कोयला एवं जीवाश्म ईंधन के जरिये इसी श्रेणी में सबसे अधिक कारों की बिक्री होती होता है।हालांकि बिक्री के लिहाज से कार बनाने

वाली दिनया की सबसे बडी कंपनी की इलेक्टिक वाहन के मोर्चे पर सुस्त रफ्तार का कारण पर्यावरण के अनुकूल निवेश करने वालों ने टोयोटा की आलोचना की है। कंपनी ने कहा है कि बाजार के लिए हाइब्रिड मॉडल कहीं अधिक अनुकुल दिख रहा है क्योंकि बाजार में ग्राहकों के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने की जरूरत है। ये विकल्प स्थानीय जरूरतों और ऊर्जा मेल पर आधारित होने चाहिए। पिछले साल टोयोटा ने अपने वाहनों को इलेक्टिक बनाने पर 2030 तक 60 अरब डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

एमऐंडएम की बिक्री में सुधार के आसार मुंबई, 1 जुलाई

वैश्विक महामारी के बाद से ही वाहन उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है। आपूर्ति पक्ष की समस्याएं बरकरार अभी खत्म भी नहीं हुई हैं जबिक लागत के मोर्चे पर वाहन कंपनियों के लिए एक अन्य चनौती पैदा हो गई है। जिंस कीमतों में तेजी के कारण वाहन उद्योग में कच्चे माल की लागत काफी बढ़ चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण एवं कस्बाई मांग में सुस्ती होने के घरेल बाजार में ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री रफ्तार सुस्त

वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान वाहन क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में काफी उम्मीदें दिखीं। खासतौर पर टैक्टर श्रेणी की मांग में सधार होने के आसार हैं और मात्रात्मक बिक्री भी बेहतर हो सकती है।

वाहन कंपनियां अभी भी चिप किल्लत की समस्या से जूझ रही हैं और रूर-यूक्रेन युद्ध के कारण चिप-सोसिंग की स्थिति कहीं अधिक खराब हो गई। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इन समस्याओं में सुधार दिखने लगा है। खासतौर पर औद्योगिक धातुओं जैसी कमोडिटी की कीमतों के मामले



मुकाबले कम है।

खेतीबारी से सकारात्मक उत्पादन और बेहतर कृषि वस्तुओं की कीमतें युद्ध से कुछ हद तक प्रेरित हो रही हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस वैश्विक बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं। वैश्विक बाजार में उनकी अनुपस्थिति से अन्य देशों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं।

में। कीमतों में नरमी आने पर मार्जिन को

वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान टैक्टर की मात्रात्मक बिक्री में मासिक आधार पर सुधार दिख सकता है। घरेलू बाजार में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) की

ट्रैक्टर की बिक्री

 कृषि क्षेत्र में अनुकूल स्थिति, एसयूवी की मांग में सुधार और जिस कीमतों में सुधार होने से वाहन कंपनियों की बिक्री को मिलेगी रफ्तार

। घरेलू बाजार में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की मात्रात्मक बिक्री में 10 फीसदी की वृद्धि संभव

वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में

कमजोर मांग के बावजुद एमऐंडएम ने कर

पश्चात लाभ के मार्चे पर बाजार के अनुमान

से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी को अन्य

स्रोतों से होने वाली आय में सुधार और कर

की दरें कम होने से बल मिला। कम उपयोगिता

शुद्ध समायोजित कर पश्चात लाभ 16.4 फीसदी की वृद्धि के साथ 1,167 करोड़ हो मात्रात्मक बिक्री में 10 फीसदी की विद्ध गया। तिमाही आधार पर राजस्व में 12.4 दिखने का अनुमान है। एमऐंडएम के प्रबंधन फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और एबिटा में 7.7 फीसदी की वृद्धि हुई लेकिन कर पश्चात ने मात्रात्मक बिक्री में सालाना आधार पर लाभ 13.7 फीसदी घट गया। एकल अंक में वृद्धि का अनुमान जाहिर किया है जो अब भी वित्त वर्ष 2021 की बिक्री के

घटकर 11.4 फीसदी रह गया।

स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) श्रेणी में मार्जिन काफी उत्साहजनक रहा और प्रबंधन का मानना है कि दोनों श्रेणियों में मांग का रुझान सकारात्मक है। हाल में लॉन्च नई स्कॉर्पियो-एन के साथ एसयूवी के लिए ऑर्डर बुक दमदार है। कम आधार का प्रभाव भी सकारात्मक होना चाहिए। कृषि मशीनरी श्रेणी से भी वृद्धि को रफ्तार मिलनी चाहिए।

मंजूरी हासिल करनी होगी।

समृह के मुख्य डिजिटल अ

धिकारी अजय थॉमस जॉन ने

सोने पर आयात शुल्क की मार

मुंबई, 1 जुलाई

डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर पड़ रहे रुपये को सहारा देने के लिए सरकार ने सोने पर आयात शुल्क पांच फीसदी बढ़ा दिया है। आयात शुल्क की बढ़ोत्तरी के कारण घरेलू बाजार में सोना करीब एक हजार रुपये महंगा हो गया। कीमतें और बढ़ने की आशंका से आज ज्वैलर्स के यहां खरीदारों की

10 ग्राम की तेजी के साथ 51,458

देखने को मि ली। एचडीएफसी

सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक

भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार के इस कारोबारियों ने विरोध किया और इससे देश में सोने की कालाबाजारी बढ़ने की आशंका जताई है।

हेड, कस्टमर रिलेशन्स मुंबई 400 013

या ५७५७५ पर एसएमएस करे REACHBS

तपन पटेल के मुताबिक सोने के दाम में तेज बढ़ोत्तरी की वजह आयात शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी है। सरका र ने 1 जुलाई 2022 से सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर बुलियन कारोबारियों को चौका दिया। अब तक सोने पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी था जो अब बढ़कर 12.5 फीसदी हो जाएगा।

ने देश में सोने की मांग को घटा ने का प्रयास किया है। हालांकि बुलियन कारोबारी इससे सहमत नहीं है। मुंबई बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक 12.5 फीसदी आयात शुल्क, 2.5 फीसदी सेस व 3 फीसदी जीएसटी मिलकर 18 फीसदी कर हो गया । मुंबई बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन प्रति 10 ग्राम हो गए, जबकि दि ल्ली ने कहा कि सरकार से उम्मीद थी कि में सोने के दाम 1,088 रुपये प्रति वह आयात शुल्क में कटौती करेगी लेकिन उसने तो अचानक बढ़ोत्तरी रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। कर दी। उसके पीछे उनका तर्क है जबिक चां दी के दाम में गिरावट

चेन्नई, 1 जुलाई

करीब 50,000 कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण मुहैया कराने की प्रक्रिया के लिए सुपर ऐप 'श्रीराम वन' के लिए आधार तैयार करने से लेकर 500 शाखाओं में उत्पाद बिक्री के लिए परीक्षण शुरू करने के लिए, श्रीराम समूह ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनैंस लिमिटेड (एससीयूएफ) और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस (एसटीएफसी) के बीच विलय के लिए तकनीकी समेकन की तैयारी कर रहा है।

समृह की डिजिटल इकाई नोवाक टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस ने डिजिटल समेकन प्रक्रिया की कमान संभाली है, वहीं समूह विलय से गठित श्रीराम फाइनैंस के लिए निर्णायक मंजुरी का इंतजार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक चरण नोवाक के विशेष प्लेटफॉर्म माईकोच के जरिये किया गया है। डिजिटल टीम ग्राहकों के लिए पेपरलेस बनने जैसी पहलों के साथ भी आगे बढ़ रही है और

ग्राहकों को मोबाइल ऐप्लीकेशन



तकनीकी समेकन

 श्रीराम सिटी यूनियन फाइनैंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस के बीच विलय के लिए तकनीकी समेकन की तैयारी

 विलय के लिए निर्णायक मंजूरी अक्टूबर-नवंबर तक मिलने की संभावना है

तथा पेमेंट-आधारित उत्पादों जैसे नए विकल्पों से जोडने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

विलय के लिए निर्णायक मंजुरी अक्टूबर-नवंबर तक मिलने की संभावना है। समूह शेयरधारकों से मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जो जुलाई के पहले पखवाड़े में मिल सकती है। साथ ही समूह को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से भी

कहा, ' तकनीकी समेकन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इसके अलावा, हम श्रीराम ग्रुप के सभी उत्पादों को एक साथ पेशकर देश में सबसे बड़े सुपर ऐप में से एक के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था में संबद्ध भागीदार (जैसे टायर कंपनियां) अपने उत्पाद मोबाइल ऐप के जरिये वितरित कर सकते हैं। खुदरा ग्राहक भी इसके जरिये बस का टिकट बुक करा सकते हैं।' इस सुपर ऐप के जरिये ग्राहक पेपरलेस मॉडल में तेज गति से उत्पादों का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, न्यूनतम दस्तावेजों के साथ ऋण मंजूरी में तेजी ला सकते हैं। यह मोबाइल पर श्रीराम ब्रांच जैसा होगा। सुपर ऐप का पहला चरण मई 2023 तक शुरू हो जाएगा और निर्णायक वर्सन में अभी करीब 30 महीने का समय लगेगा।

दोनों कंपनियों ने समेकन प्रक्रिया के तहत कम से कम 500 शाखाओं में उत्पादों की बिक्री के लिए परीक्षण शुरू कर दिया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड लखनऊ संस्करण

बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के

लिए प्रकाशक एवं मद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, बी-5, अमौसी इंडस्टियल एरिया, कानपर रोड, लखनऊ, उ.प्र. से मुद्रित एवं C/o महेश शुक्ला, हनुमान मंदिर के पीछे, आई.टी. बिल्डिंग, हजरत गंज,

उ. प्र. २६००१ से प्रकाशित संपादक : कैलाश नौटियाल

आरएनआई नं UPHIN/2008/25502 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in ਧਾ संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599 सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए

सुश्री मानसी सिंह बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल. बिल्डिंग एच. पैरागन सेंटर सेंचरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली,

संपर्क करें

ईमेल.. subs_bs@bsmail.in

कोई हवाई अधिभार नहीं

आयात शुल्क बढ़ना कर सरकार आभूषणों मुंबई में सोने के दाम करीब एक हजार रुपये बढ़कर 51,849 रुपये

कि कीमतें ज्यादा होने के कारण लोग सोना कम खरीदेंगे, सरकार की यह भूल है।

श्रीराम समूह विलय की तैयारी में शाइन जैकब